



# रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर

RAILWAY RECRUITMENT BOARD, BILASPUR

भारत सरकार : रेल मंत्रालय

Govt. of India (Ministry of Railways)

Phone: 07752-247291, Fax: 07752-247287



सं.आरआरबी/बीएसपी-4/रिजल्ट/04-2012/टेक/559

दिनांक : 08.01.2018

## केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना सं. 04/2012 कोटि सं. 01 तकनीशियन सिगनल ग्रेड-II के अंतिम पैनल का भाग

इस कार्यालय के परिणाम सूचना सं.आरआरबी/बीएसपी-4/रिजल्ट-पैनल/टेक/220 दिनांक 31.05.2013 तथा परिणाम संख्या आरआरबी/बीएसपी-4/रिजल्ट-पैनल-टेक/231 दिनांक 07.08.2013 के क्रम में कोटि संख्या 01 के विरुद्ध पे बैंड रु.5200-20200 ग्रेड पे 2400/- पर तकनीशियन सिगनल ग्रेड-II के पदों के लिए भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत शेष उम्मीदवारों का परिणाम प्रकाशित किया जाता है। आरोही क्रम में **अनुलग्नक-I** में दिए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर उपरोक्त पद के लिए पैनल के लिए अस्थायी रूप से सफल पाए गए हैं। आवंटित रेल प्रत्येक रोल नंबर के सामने लिखा गया है। जिस उम्मीदवार का परिणाम रोका गया है, उसकी सूची **अनुलग्नक-II** में दी गई है। **अनुलग्नक-III** में सूचीबद्ध उम्मीदवार को स्टैंडबाई सूची के तहत रखा गया है।

रोके गए उम्मीदवार को दोषरहित दस्तावेजों को 23.01.2018 तक निश्चित रूप से प्रस्तुत करने के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है, इसमें असफल रहने पर उपरोक्त पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को बिना किसी नोटिस के रद्द कर दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि यह अंतिम परिणाम अस्थायी है तथा यह पैनल संबंधित रेलवे द्वारा उम्मीदवारी एवं संबंधित दस्तावेजों की जाँच के अधीन है, अतः जब तक अग्रलिखित शर्तें पूर्ण नहीं होती हैं, तब तक वे रेलवे में नियुक्ति के लिए अधिकृत नहीं हैं :- (क) उनके द्वारा शैक्षणिक योग्यता, उम्र तथा समुदाय इत्यादि के मूल प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना, इसमें वे सभी मूल दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी फोटो कॉपी दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किए गए और जिनका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया (ख) रिक्तियों की उपलब्धता (ग) निर्धारित चिकित्सा परीक्षा उनके द्वारा उत्तीर्ण करना (घ) अपेक्षित प्रशासनिक औपचारिकताएँ/प्रक्रियाएँ पूर्ण करना तथा (ङ) नियुक्ति/वास्तविक पदभार ग्रहण करने के पूर्व उनके अँगूठे के चिह्न, फोटो, हस्ताक्षर, अक्षर और उनके आवेदन में दिए गए अन्य विवरणों का मेल खाना।

अंतिम परिणाम हमारी वेबसाइट [www.rrbilaspur.gov.in](http://www.rrbilaspur.gov.in) पर उपलब्ध है। यदि बाद में कोई उम्मीदवार किसी आरआरबी द्वारा बहिष्कृत पाया जाता है या योग्यता, उम्र, समुदाय इत्यादि के संदर्भ में कोई विसंगतियाँ/अनियमितताएँ पाई जाती हैं तो उसकी उम्मीदवारी/ नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

अंतिम परिणाम को तैयार करने में सभी प्रकार की सावधानी बरती गई है, तथापि किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की भूलचूक को सुधारने का अधिकार रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर को है।

कृते

अध्यक्ष

रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर

अनुलग्नक-I

अनंतिम रूप से पैनल में रखे गए उम्मीदवारों की सूची

अनुक्रमांक	रेलवे	अनुक्रमांक	रेलवे
30124018000006	दपूम रेलवे	30124015000018	दपूम रेलवे

(केवल दो)

अनुलग्नक-II

स्टैंडबाई सूची में शामिल उम्मीदवार की सूची

अनुक्रमांक
30124018000007

(केवल एक)

अनुलग्नक-III

जिसका परिणाम रोका गया है उस उम्मीदवार की सूची

अनुक्रमांक
30124015000005

(केवल एक)

(कुल योग चार)